

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 01/03/2023

लूट के आभूषण के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्ग दर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में जनपद में घटित लूट की घटना से सम्बंधित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु खोराबार पुलिस टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में मुखबीर की सूचना पर 30नि0 दीनबन्धु प्रसाद की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2023 धारा 392,506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त चन्द्रशेखर चौधरी पुत्र सलहन्त चौधरी निवासी ग्राम रामपुर पड़ाव थाना खोराबार गोरखपुर को दो अदद कान का कनफूल पीली धातू, जिउतिया पीली धातु टुटा हुआ व मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में चन्द्रशेखर चौधरी से पूछा गया तो बताया कि कुसुम्ही जंगल में रेलवे क्रासिंग के पास से एक महिला को धमका कर छीना था। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर उपरोक्त पंजीकृत है। उक्त मोटर साइकिल सं0-UP53CR4428 घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल है जिसे धारा 207 MV एक्ट में सीज किया गया। बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि0 की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- पीड़िता दिनांक 28.02.23 को दिन में लगभग 12.00 अपने बहन के दामाद के घर जंगल के रास्ते जा रही थी। जब पीड़िता कुसुम्ही जंगल में बने रेलवे क्रासिंग जंगल के पास पहुंची तो एक व्यक्ति गाड़ी से पीड़िता को आगे तक छोड़ने को कहा जब पीड़िता ने उसका नाम पूछा तो अपना नाम चन्द्रशेखर चौधरी बताया। पीड़िता को गाड़ी पर बैठाकर जंगल में ले गया और धमकी देते हुये पीड़िता के कान का कनफूल सोने का और गले में जुइतिया सोने का छीन लिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। उक्त घटना के संबंध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 166/2023 धारा 392,506 भादवि पंजीकृत किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता-

चन्द्रशेखर चौधरी पुत्र सलहन्त चौधरी निवासी ग्राम रामपुर पड़ाव थाना खोराबार गोरखपुर

बरामदगी-

दो अदद कान का कनफूल व दो अदद जिउतिया टुटा

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 166/2023 धारा 392,506,411 भा0द0वि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 दीनबन्धु प्रसाद थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. का0 पियूष कुमार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का0अभय कुमार यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. म0का0 पूजा मौर्या थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
5. म0का0 कंचन थाना खोराबार जनपद गोरखपुर